



RUNGTA IRRIGATION LIMITED

REGD. & HEAD OFFICE

101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi - 110008

Ph.: 011-40453330, 331, 332 CIN: L74899DL1986PLC023934 E-mail: info@rungtairrigation.in Website: www.rungtairrigation.in

To, The General Manager, BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,
Mumbai -400001

Scrip Code: 530449

Subject : Intimation of Newspaper publication of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on $31^{\rm st}$ December, 2024

We hereby inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2024 published in the following newspapers:

- 1. In English Daily The Pioneer New Delhi
- 2. In Hindi Daily Pioneer New Delhi

You are requested to kindly take the aforesaid information on your record.

Yours faithfully,

For Rungta Irrigation Limited

Ayushi

Bajaj

Digitally signed by Ayushi Bajaj Date: 2025.02.14 15:17:19 +05'30'

Ayushi Bajaj Company Secretary & Compliance Officer ICSI M. No. A71268



February 14, 2025



PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Mr. Ajay Kumar S/o Sham Sunder and Mrs. Nirmal W/o Aiay Kumar R/o D-93. 1st Floor, Fateh Nagar, New Delhi 110018 have disowned/debarred their son Deepak Valecha and daughter in law Java Babuta from all their movable & immovable properties and severed all relations with both of them due to their misconduct. Any person dealing with them shall be doing at his/her PRAVEEN RASTOGI

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to public at large that on the instructions of my client, M/s The MN Matrimony Pvt. Ltd., my client, including its Directors, employees, website: www.thematrimonyindia.com, and it's subsidiary "Shivay Services" have no relation, connection, or affiliation whatsoever in any manner with the company named M/s Weblink.in Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "the said company") or its website. Any customer who chooses to engage with the said company and subsequently approaches my client does so entirely at their own risk and discretion. My client is neither responsible for nor involved in any dealings, transactions, services, or representations made by the said

Ms. Seema Rani, Advocate For DASK & Karkardooma Courts, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE My client Sh. Manish Sharma s/o sh. Dhanesh Chand Sharma Owner of Residential House, area measuring

31 sq. vards i.e. 193.13 sq. meter, out of Khasra no 231 Sq. yards i.e. 193.15 Sq. meter, out of Mhasra ho. 206, situated at Village Shahdara, Pargana Dadri lehsil And District Gautam Budh Nagar U.P. Through Registered Gift Dated 04.02.2025 executed Sh. Dhanesh Chand Urf Dhanesh Chand Sharma Vide Reg no. 4100 at SR-G NOIDA U.P. The above-mentioned property is going to be mortgage with Fedbank Financial Services Limited. If any person/hank/financial institution baving any claim / erson/bank/ financial institution having any claim right, lien, Any objection whatsoever in regard to the right, lien, Any objection whatseever in regard to the above properly, should notified to the undersigned/ Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092 along with documentary evidence under address through registered within 7 days from the date of publication of this notice failing which any elimits for a projection, shall be deemed to have been claim, lien or objection shall be deemed to have been waived. Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardoom Court, Delhi-110092: Mobile Number - 9811215181.

PUBLIC NOTICE TENDER

Sealed item rate tenders are invited from reputed firms for repair of OHT's, Ramps and basement tunnels of Block 2,3 & 9. Tenders can be downloaded from Society website http://www.navsansad.in/Tenders.as px and can be submitted in the Society office on or before 28.02.2025.

Secretary Nav Sansad Vihar CGHS Ltd. Plot No.4. Sector-22. Dwarka New Delhi-110077

17.30 Hrs. of dt.06.03.2025.

:- 06.03.2025 unto 17.30 Hrs :- 07.03.2025 at 12.30 Hrs.

:- The Additional Chief Engineer, P.H. Circle, Nayabazar Cuttack-753004, Odisha,

Addl. Chief Engineer

P.H. Circle, Cuttack

Ph.(0671)2440841 email:sephctc@gmail.com



GOVERNMENT OF ODISHA OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER. P.H. CIRCLE, NAYABAZAR, CUTTACK-753004

NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement ritation For Bids (IFB) No.ACEPHCTC-02/2024-25 Dtd.06.02.2025

Sl.	Name of the work	Estimated cost
No.		(Approx)
1.	Improvement of water supply to Pattamundai Municipality including O&M for	Rs.611.40 lakh
	5 years under AMRUT 2.0 SWAP-III.	

- 1. Date & time of availability of bid document
- 2. Last date / time of receipt of bids in the portal
- 3. Date & time of opening of bids
- 4. Name and address of the Officer Inviting Bid

Further details can be seen from the web site www.tendersorissa.gov.in

OIPR-13029/11/0004/2425





The Punjab state Cooperative Milk Producers' Federation Limited (Milked Punjab) in vites applications/resumes for appointment of one full time consultant (Sales &Distribution) with Head Quarter at Delhi on contract basis initially for period of one year (which could be extended further as per requirement) :-

Qualification & Experience:- The desired candidate should have MBA in Marketing/Equivalent from a reputed institute and should have minimum 15 years of experience in Sales & Marketing, out of which minimum 10 years experience in dairy sector. Preference shall be given to candidates having prior working experience in

Salary for the above consultant shall be negotiable. Interested eligible candidates may send their resumes by post/e-mail. The last date of receipt of the resumes is 02.03.2025. Milkfed Punjab reserves the right to evaluate the resumes and call selected number of candidates for further interview

For further detailed information & updates, may please visit our website https://verka.coop/career/

NA/12/28073/2023/41646 14-02-2025

Dy. General Manager (HR)

I, Krisna Singh, Mother of-

JC-472354M Sub Manoj

Kumar Singh, R/o- Vill-

Medhauna, Tiloi, Dist-

Amethi, U.P., have changed

my name from Krisna Singh

to Krishna Devi, vide

affidavit dated 13/02/2025

before Notary Public Delhi.

I, Sorabh Singh S/o- JC-

472354M Sub Manoj Kumar

Singh, R/o-Vill-Medhauna,

Tiloi, Dist- Amethi, U.P.,

have changed my name

from Sorabh Singh to

Saurabh Singh, vide

affidavit dated 13/02/2025

before Notary Public Delhi.

I, No.14835492A Hav/MT

Mahesh Singh Yadav, R/o-

Vill/ Post- Tandwa M

Ghazipur, U.P.- 233227, have

changed my daughter's

name from Gauri to Gauri

Yadav, vide affidavit dated

13/02/2025 before Notary

I, R Archana W/o- JC-355597M

Nb/Sub Arun Kumar, R/o-

2/242, Thiru Murugan Nagar,

Pillanthipattu, Mudinampattu,

Dist- Vellore, Tamilnadu-

632204, have changed my

name from R Archana to

A Archana, vide affidavit dated

13/02/2025 before Notary

(Kajipursiraj),

Public Delhi.

Public Delhi.

Mohammdabad,

PD(1485)C

PD(1486)C

Teh-

Dist-

PD(1487)C

PD(1488)C

Place : New Delhi Date : 13.02.2025

LOST & FOUND

Original documents including, purchase agreement, possession letter for sale/purchase of Flat no.703 Rattan Jyoti Apartments, Sector 4. Vaishali, Ghaziabad, Finder may contact: 9911461345 PD(1483)A

CHANGE OF NAME

I, IITENDAR S/o Hukam Singh R/o 846, GF-2, Sector-Vaishali, Ghaziabad (U.P) 201010 declare that my name has been wrongly written as Jitender in my Driving License No. P08062005442091. The actual name of mine is litendar. In future I will be known as

I, Jheel Jain D/o Shri Praveen Jain R/o B-601, Kushal Vatika Near RTO, Pal, Surat City, Navyug College Surat, Gujrat. I have change my name from Dixita Pravinbhai Jain to

PD(1480)A

litendar.

Jheel Jain for all future purposes. PD(1481)C I, Ashish Rathore, S/o Rajinder, R/o Plot No 10-A, Khasra Number 39/14 and 17 Gali No 9, Gautam Colony, Narela, Delhi 110040, holder of Aadhaar Number 962154980742 and Pan

Card Number FQOPA7225N declare that I have changed my name from Ashish Dewan to Ashish Rathore for all purposes.

PD(1482)C I, Chaitanya Arora S/o Mr. Sanjay Arora R/o H.No-2602, Gali No-4, Shadipur Main Bazar, Patel Nagar, New Delhi-110008, declare that my name has been written in my 10th certificate as Chatney Arora instead of Chaitanya Arora. My correct name is Chaitanya Arora which may amended accordingly.

PD(1484)C

It is informed in public that my father SH RAJBIR SINGH was the lessee of 50 % share o Plot No. 008. Block P.K. Sector-122. Noida Distt-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201301 measuring 450 sq. mtr. My father SH. RAJBIR SINGH executed a will in my favour or 29-09-2023 of his share which was registered in the office of Sub Registrar –II, Noida Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh at Book No. III Volume No. 963 at pages 271 to 282 at Document No. 226 on 29-05-2023. My fathe SHRI RAJBIR SINGH expired on 15-01-2025. want to mutate above property in my favour or the basis of will, if any body have any objection for above mutation may file objection in the residential plot of NOIDA Authority Sector-6, Noida, within 30 days MOHIT BENIWAL.

PUBLIC NOTICE

ICE is hereby given that Mrs. Sareena Singh einafter referred to as the said Mortgagor/Borrower) urchasing Flat Bearing Pvt. No. 3B, adm. 2750 Sq. Second Floor, built on Plot Ne. B-8, adm. 1,500 Sq. NOTICE is FL, Second Floor, built on Plot No. B-8, adm. 1,500 Sc, Vds., Southend Castles, Jangpura, Mathura Road, New Delhi (hereinafter referred to "said property") from Mr. Deepak Agarwal & Mrs. Astha Agarwal who are it's owners by virtue of Certificate of Sale dated 25.04.2022 executed in their favour by Deutsche Bank AG India through it's Authorised Officer Mr. Vishal Charan, Regd. as Doc. No. 2548 on 09.05.2022. The Borrower will create mortgage in respect of the said property in favour of our clients Indusind Bank Limited, 12th Floor, Hyatt Regency Complex, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066. Any person, body, individual, institution having any claim and/or objection in respect of the said property any claim arrivor usign commensate on the same pulse, charge, by way of sale, exchange, lease, liein, mortgage, charge, encumbrance, gift, frust, easement, maintenance, inheritance, testamentary deposition or otherwise or having in their custody any title documents pertaining to the said property shall communicate the same to the undersigned at our address within 10 days from the buffication of this notice with documentary evidence in publication of this notice with documentary evidence in undersigned at due address winn's rougs inform to appar information of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person shall be considered to have been waived and/or abandoned. Any objections raised after the completion of the 10 days shall not be binding upon the said property or purchaser.

Mr. Akhil Gupta (Advocate) Khaitan & Khaitan A-38, Kailash Colony New Delhi, 110048 Tel. + 1149774545/99

PUBLIC NOTICE

Reg. Portion of Property bearing No. B-61B, area measuring 64 sq.yds. "said portion", out of total land area measuring 850 sq.yds. "laling in Khasra No. 12/18, Situated at Village Karawal Nagar in the abadi of Mukand Vihar, Illaga Shahdara, Delhi (Hereinafter referred to as the "Said Property"). Be it known to all that our clients, Mr. Bantu Kumar & Mrs. Pooja (hereinafter called the "Purchaser") intend to purchase the said porion from Mr. Jayand 16/PA of Mr. Narender Kumar (hereinafter called the "Attorney-holder"). In this connection, the Attorney-holder has informed the purchaser that he is the sole and absolute attorney holder in respect of the said property vide POA documents viz., GPA (registered as Document No. 12333 on 25.03.2003, and Will (registered as Document No. 5465 date (see Document No. 12333 on 25.03.2003, and Will registered as Document No. 5465 dated 25.03.2003) executed by Mr. Narender Kumar nits favour. The Attorney holder has further informed that Mr. Narender Kumar owned the said property by means of Revenue records. Trus, the Attorney holder is the sole and absolute attorney in respect of the said protion. The Attorney holder has also informed the burchaser that the said portion is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding he said portion. said portion

Any person including Bank/s, Financia institution/s relative/s having any claim, right title or any interest of any nature whatsoever into or upon the said portion is hereby called into or upon the said portion is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the attorney-holder in respect of the said portion shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our clients/Purchaser, in any manner whatsoever.

Shivkant Arora, Advocate M/s Intellective Law Offices A-74, LGF, Defence Colony, New Delhi -110024

PUBLIC NOTICE

ly client Sh. Gopal S/o Ram Lubhaya, residin t House No. C-19, Rani Garden, Shastri Naga ast Delhi, Delhi-110031, disowned/severed a relations with his brothers, Karan and Premalong with their wives, Jyoti @Sonia and Jyot excluded them from any claim to his movable /immovable properties. Engaging with them is at your own risk, my client shall not be held liable for any dealings/ actions involving them, arising from their misconduct and unlawful behavio owards hirn, and their failure to adhere to hi

Tushar Malhotra (Advocate), Ch. No. G-720, Karkardooma Court Shahdara, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE M/s R R TEXKNIT LLP, is pleased to inform that the

Grant of Environmental clearance had been ccorded with Environmental Clearance vide invironmental Clearance No. EC24C3801DL5556057N Dated 13.01.2025 from the Ministry of Environmer Forest & climate change (MoEF& CC), Delhi. The copies of the clearance letters are available

with Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi and can also be seen on their

> Rakesh Kumar Sharma Designated Partner

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that Mrs. Sushma Watts W/o Late Sh. Naresh Watts R/o 32,GF,SBI Colony,Paschim Vihar Delhi-110063 applied for ransfer of ownership of flat No.T-3/0702, ustomer ID No. KLH4/00038/16-17 Plot/ Flo customer ID No. NLHADUU36/16-17 Pidd Floor, LAKE HEIGHT, Sonipat Haryana in herhis name claiming her/him self the legal heir of deceased Late Sh.Naresh watts Sjo Harbans Lall Watts per document, dated 04.02.2017 in records of company i.e. TDI INFRACORP (INDIA) LTD. Having its office

Vandana building 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001. Any person having any objection for transfer of the said flat in favour of Mrs. Sushma Watts S/o Late. Sh.Naresh Watts may send at the above noted office of company with supporting documents or email customer.care@tdiinfracorp.com within 15 days of the publication of this notice otherwise it shall be assumed that there are no objections to the proposed transfer of the said flat in his/her name. After that company shall not be liable for any claim whatsoever after 15 days.

TDI Infracorp India Ltd. Having its office Vandana Building, 11, Tolstoy

Be it known to all by way of this Public Notice that my clients Rajesh Shanker Khatwani and others have applied for the substitution/mutation of lease hold rights in their names in respect of property No. 37/22, East Patel Nagar, New Delhi-110008 to Land & Development Office (L&DO) If any person (from general public) has any objection for the said substitution/mutation, then such person should notify the same to the L&DO forthwith alongwith valid documentary proof, through regd. post or by personally visiting L&DO at Nirman Bhavan, New Delhi and/or through an email at Ido@nic.in within 30 days from the date of publication of this notice. Jagdish Chandra Trikha (Adv.), M-4, Civil Side Tis Hazari Court, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE Be it known to all by way of this Public Notice that my clients Tajinder Kaur and others have applied for the substitution/mutation of lease-hold rights in their names in respect of property No. 1B/82. Single Storey. Ramesh Nagar. New Delhi-110015 to Land & Development Office. IB/82. Single storey, Kamesn Nagar, New Delhi-110015 to Land & Development Office (L&DO) if any person (from general public) has any objection for the said substitution/mutation, then such person should notify the same to the L&DO forthwith alongwith valid documentary proof, through regd. post or by personally visiting L&DO at Nirman Bhavan, New Delhi and/or through an email at Ido@nic.in within 30 days from the date of publication of this notice. Jagdish Chandra Trikha (Adv.), M-4, Civil Side, Tiz, Hazari Court, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Shri Chirojit Phattacharya son of Shri Biswajit Bhattacharya resident of A-9, Chittaranjan Park, New Deihi 10019 has agreed to sell us, the entire Ground Floor including but not limited to entire exclusive drive way and parking with exclusive drive way entrance for the Ground Floor, open front and back area on Ground Floor, infof the said property bearing no. A-9, measuring 409 square yards. situated at Chititaranjan Park, New Delhi 110019 free from all encumbrances, any person having any right, tile, interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect of the said property, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at B-31, Soami Nagar, New Delhi 110017 within fourteen days from the date of publication hereof, failing which the publication hereof, failing which the egotiations shall be completed, without any erence to such claims and the claims if any shall be deemed to have been given up or waive

E-mail ID: srishi@yahoo.com Mobile No.: +91-9871577722 Address: B-31,SoamlNagar, New Delhi-110017

Marg, New Delhi-110001, Phone No. 011-43111111 MONEY SECURITIES LTD.

CIN: L67120DL1992PLC047890
Regd Office: 10-A, UNDERHILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-54
Ph: 011-47087300, 23930655. EMAIL ID: mymoneyviews@outlook.com Extract of the Standalone Unauditied Financial Results for the

S.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Nine		In Lakhs) Year
NO.	r di libbidi b	Ended		Ended	Months		Ended
					Ended	Ended	
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	(84.38)	135.44	73.46	1542.26	189.44	367.93
2	Net Profit/(Loss) for the period						
	(Before Tax and after exceptional	(230.87)	91.69	40.49	1253.22	103.31	221.25
	items)						J
3	Net Profit/(Loss) for the period						
	after tax (after exceptional items)	(223.12)	97.26	31.98	915.39	81.20	208.19
4	Total comprehensive Income for						
	the period (comprising profit/(loss)	(223.12)	97.26	31.98	915.39	81.20	208.19
	for the period after tax and other						
	comprehensive income after tax						
5	Equity Share Capital	1680.03	1680.03	1680.03	1680.03	1680.03	1680.03
6	Earning per share (of Rs .10/- each)						
	(*EPS for the Quarter ended are						
	not annualised)						
	Basic	(1.328)*	0.579*	0.191*	5.449*	0.484*	1.239
	Diluted	(1.328)*	0.579*	0.191*	5.449*	0.484*	1.239

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company website www.mymoneyviews.com For and on behalf of the Board of Directors

Place : Delhi Dated : 13.02.2025



Sd/-Sanjai Seth Whole Time Director & C.F.O DIN: 00350518

JINDAL LEASEFIN LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059252 Regd. Office: 110, Babar Road, New Delhi - 110 001 EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

ı	FOR THE QUARTER AND	NINE MO	NTHS EN	IDED 31.1	2.2024	(F	Rs. in Lacs)
		Three Me	onths Quart	er Ended	Nine Months	Period Ended	Year Ended
SI. No.	Particulars		30.09.2024 Un-Audited			31.12.2023 Un-Audited	31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	-138.93	11.37	-	-126.06	-	0.73
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items#)	-142.21	9.51	-2.07	-136.82	-8.85	-18.56
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	-142.21	9.51	-2.07	-136.82	-8.85	-18.56
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	-106.64	-3.59	-1.53	-113.24	-6.55	-15.77
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profil/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-108.68	13.72	8.36	-85.88	27.07	30.48
6	Equity Share capital	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	439.98	548.67	522.44	439.98	522.44	525.86
8	Earning per Share (face Value of Rs. 10/- each)(not annualised)						
	1 Basic	-3.54	-0.11	-0.07	-3.76	-0.24	-0.52

2. Diluted NOTE:

held on 12.02.2025.

Place : New Delh

 The above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and nin. months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com . The same is also available on the Company's website www.jindalleasefin.in 2. The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting



For Jindal Leasefin Limite /SURFNDER KUMAR JINDAI

-0.11 -0.07 -3.76 -0.24

ADDI INDUSTRIES LIMITED

A-104, 3rd Floor, DDA Shed Okhla Industrial Area Phase-II, CIN:- L51109DL1980PLC256335, Tel.: +91-120-2529335 E-mail: atul.addi@gmail.com & addiind@gmail.com Statement of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Result: For The Quarter and Year Ended December 31, 2024 (Rs. in Lakh, except per share data)

Şr No.	Particulars	Quarter	0	Standak			
	Particulare	Quarter	0				
No.	Particulare		Quarter	Quarter	9 Months	9 Months	Year
	Faiticulats	ended	ended	ended	ended	ended	ended
ı		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	264.86	136.04	135.40	400.90	389.52	726.89
2.	Net Profit for the period (before Tax and						
	exceptional items)	203.67	101.90	103.23	305.57	310.52	617.48
3.	Net Profit for the period (before Tax, after						
	exceptional items)	203.67	101.90	103.23	305.57	310.52	617.48
4.	Net Profit for the period after Tax (after						
	exceptional items)	154.13	77.42	78.56	231.55	236.16	453.32
5.	Total Comprehensive Income for the period						
ı	(Comprising Profit for the Period after Tax and						
	Other Comprehensive Income after Tax)	(0.60)	(0.30)	(0.03)	(0.90)	(0.07)	(1.20)
6.	Paid-up equity share capital(Face Value Rs.5/- each)	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
7.	Earnings Per Share (of Rs.5/- each)(Not Annualised)						
ı	Basic	1.43	0.72	0.73	2.14	2.19	4.20
	Diluted	1.43	0.72	0.73	2.14	2.19	4.20
Ь.						, except per	share data)
I. I		_		Consolid			
Sr		Quarter	Quarter	Quarter			
No.	Particulars	ended	ended	ended	ended	ended	ended

	Diluted	1.43	0.72	0.73	2.14	2.19	4.20	
(Rs. in Lakh, except per sl								
				Consolid	ated			
Sr		Quarter	Quarter	Quarter	9 Months	9 Months	Year	
No.	Particulars	ended	ended	ended	ended	ended	ended	
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	
		(Unaudited)		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	273.22	140.21	139.37	413.43	401.26	742.64	
2.	Net Profit for the period (before Tax and							
	exceptional items)	211.69	106.01	107.07	317.70	322.06	632.97	
3.	Net Profit for the period (before Tax, after							
	exceptional items)	211.69	106.01	107.07	317.70	322.06	632.97	
4.	Net Profit for the period after Tax (after							
	exceptional items)	160.97	80.93	81.87	241.90	246.08	466.62	
5.	Total Comprehensive Income for the period							
	(Comprising Profit for the Period after Tax and							
	Other Comprehensive Income after Tax)	(0.60)	(0.30)	(0.03)	(0.90)	(0.07)	(1.20)	
6.	Paid-up equity share capital(Face Value Rs.5/- each)	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	
7.	Earnings Per Share (of Rs.5/- each)(Not Annualised)							
	Basic	1.49	0.75	0.76	2.24	2.28	4.32	
	Diluted	1.49	0.75	0.76	2.24	2.28	4.32	
Mote	00 1							

otes:
The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting and on February 13, 2025. The tinancial results for the quarter and nine months, ended December 31, 2024 have been limited reviewed in the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation,2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website at http://www.addiindustries.com/ The same can also be accessed by scanning the given QR Code.

There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

al items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules

Addi Industries Limited

Bratischarys son O Shi biswell, ill Bratischarys are resident of A-9, Chittaranjan Park, New Delhi 110019 has agreed to sell us, entire Third Floor, at Entre Terrace above/upon the Third Floor and thereabove up to the limit of sky (with right to construct, own and possess any number of floor's on the said terrace and on subsequent terrace(s) as and when permitted by the authorities concerned, in/of the said property bearing no A-9, measuring 409 square yards, sitiuated at Chittaranjan Park, New Delhi 110019 free from all encumbrances. Arry person having any right, title, interest, claim or demand of any nature whalsoever in respect of the said property, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at B-31, Soami Nagar, New Delhi 110017 within fourteen days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or Waitved.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Shri Chiroji Bhattacharya son of Shri Biswajit Bhattacharyya resident of A-9, Chittaranjan Park, New Delh

waived. Rishi Kumar Srivastava E-mail ID : srishi@yahoo.com Mobile No. : +91-9871577722

PUBLIC NOTICE

To be known to all that, I MANOJ KUMAR VIMAL S/O SH. RADHA MOHAN R/O FLAT NO. 67A, 1ST FLOOR, BLOCK-C-7. AWRENCE ROAD, KESHAV PURAM, DELH nutatee of the DDA LIG FLAT NO:-67A, 1S1 FLOOR BLOCK-C-7. LAWRENCE ROAD KESHAV PURAM DELHI-35 has applied for onversion of the aforesaid flat fror

asehold to freehold. he original document i.e. Mutation Letter of the above-mentioned property has been ost, An FIR against this effect has been odged in Police station.

any persons claiming any right, interest, aving any objection of found in ossession of original documents, may vrite contact with above named person a hove address/phone No. 9999905657 f this notice. The person claiming any ight, interest, objections with respect to nis property can personally inform or write to Dy Director (LIG) or Director (H)-2. D-Block, 2nd floor, Vikas Sadan, INÁ, Nev

Rungta Irrigation Limited

®

PUBLIC NOTICE

Public Notice regarding cancellation of property

This Public Notice is from M/S JKG Construction Pvt Ltd for Mr Manish Dutt Sharma and Mrs Shikha Sharma bearing unit no. C1-1604 at JKG Palm Court, Plot No. GH-01D, Sector 16C, Greater Noida West, Uttar

We have offered possession of your allotted unit in February 2021, basis which we have shared final demand notice of unit C1-1604 on 21.06.2021, 30.11.2022, 17.08.2024, 21.08.2024, 24.08.2024 & 27.08.2024 but you failed to make the payment as per final demand notice. Hence we have cancelled your allotted unit via cancellation intimation letter dated 02.12.2024. Neither got any response from your end nor we have received any payment so far which tantamount to your tacit acceptance that you are no more interested in taking possession of the said flat.

Hence your allotted flat C1-1604 is being cancelled on 16.01.2025, as such the allotment has become null & void and you have no claim on the dwelling unit and your deposited amount shall be refunded as per BBA For M/S JKG Construction Pvt Ltd

STATE BANK OF INDIA

PUBLIC ANNOUNCEMENT

REGISTERED A.D. POST

SHRI ABHISHEK KUJUR Flat No . 611, Rama Apartments, Plot No 2

Set 11, Dwarka, South West Delhi-110075 No.: HR/SS/1821, Date: 11.11.2024

VOLUNTARY VACATION OF SERVICE It is observed that you have been absenting from duty, despite your leave being refused/beyon

the period of sanctioned leave, since 18.07.2023. In this connection, we refer to the Registerec A. D. notice HLC/BC/11/2024-25/20, dated 07.08.2024 (and paper publication on 09.08.2024) issued by the Assistant General Manager, Home Loan Centre, Bengaluru Central instructing you nowever, observed that you have so far not compiled with the instructions contained therein.

Now that you have failed to report for duty in spite of the above said notice, it is deemed that you have voluntarily vacated your service amounting to voluntary resignation from service of the Bank with effect from 09.09 2024. . You are hereby requested to pay three months emoluments within 15 days of the receipt of this

notice, failing which the Bank will be constrained to set off the same against your terminal due: and any other amount payable to you without prejudice to recovering the full amount or par

General Manager. NW I, Appointing Authority

Rungta Irrigation Limited

Regd. Office: 101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi 110008 Tel: 011-40453330,31,32, E-mail: cs@rungtairrigation.in, Website: www.rungtairrigation.in CIN: L74899DL1986PLC023934

Statement of Standalone Unau	dited Financ	ial Results fo	r the Quarter	and Nine Mo	onths ended 3	1-12-2024
				(Rs. in Lak	hs, Unless Othe	rwise Stated)
	For the Quarter Ended For the Nine Months Ended Y			Year Ended		
Particulars	31/12/2024 Unaudited	30/09/2024 Unaudited	31/12/2023 Unaudited	d Unaudited Unaudited		31/03/2024 Audited
Total income from operations	7001.00	5445.19	4115.66	15486.41	9753.64	14877.30
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	241.43	339.23	200.84	749.89	601.76	761.33
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	241.43	339.23	200.84	749.89	601.76	761.33
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	215.26	219.21	150.27	561.10	450.87	565.06
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	215.38	219.09	150.45	561.48	451.04	564.76
Equity Share Capital	1992.35	1992.35	1992.35	1992.35	1992.35	1992.35
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	1.08 1.08	1.10 1.10	0.75 0.75	2.82 2.82	2.26 2.26	2.84 2.84

The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its meeting held on 13th February, 2025.

13th February, 2025.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and at Company's website: https://www.rungtairrigation.in/financial-year-2024-25/

For Rungta Irrigation Limited Sd/lace: New Delhi
late: 13/02/2025

Whole Time Director | DIN: 00229045

Earnings/(loss) per share (in Rs.)

Basic / Diluted

Date: 13.02.2025



Whole Time Director | DIN: 00229045

RAMPUR FERTILIZERS LIMITED

Regd. Office: Judges Bareilly Road, Rampur 244 901 (U.P.)

CIN: L15136UP1988PLC010084 Email id- rkumar@rampurfert.com, Web.: www.rampurfert.com Extract of unaudited financial results for the quarter ended on 31st Dec. 2024 (Rs. In Lacs)

Standalone Results Consolidated Results Quarter Year Quarter Ended Particulars Ended ended Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Audited 31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2024 31.03.2024 695.08 2240.00 Total Income from Operations 481.81 566.41 2240.00 695.08 Net Profit / (Loss) for the period before tax 135.47 -166.88 135.47 -166.88 Net Profit / (Loss) for the period after tax 135.47 -55.04-167.08135.43 167.08 Net Profit / (Loss) after Share of Profit (Loss) of Associtates 135.47 17.11 -55.04 -167.08 132.01 -128.93 Net Profit / (Loss) after other comprehensive income 121.83 14 40 -27.95 -176 18 118.37 -138.03 Paid up Equity Share Capital 494.82 494.82 494.82 494.82 494.82 494.82

NOTES The above is an extract of the financial results for the quarter ended on 31st Dec. 2024 filed with the stock exchanges under

regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full Financial results for the quarter ended 31st Dec. 2024 are available on www.msei.in, "www.cse-india.com and www.rampurfert.com

By order of the Board Anshuman Khaitan

0.35

-3.38

-3.38

(Managing Director)

-0.56

EMAAR INDIA LIMITED

CIN- U45201DL2005PLC13361 Registered Office: 306-308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi - 110017

Email ID - bharat.garg@emaar.ae, Website -www.in.emaar.com

UNAUDITED STAP								
FOR THE PERIOD	FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2024 (F							
	C	uarter ende	ed	Nine mont	hs ended	Year ended		
	24 20 24 24 24							

s.		31	30	31	31	31	31
No.	Particulars		September		December	December	March
		2024	2024	2023	2024	2023 Unaudited	2024
_	Tatalla and from Occasions			Unaudited	Unaudited		Audited
1	Total Income from Operations	9,883.17	2,840.83	9,112.95	15,665.72	25,102.27	27,565.67
2	Net Profit / (Loss) for the period						
	(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	5,014.15	(1,160.84)	2,163.34	2,739.90	1,294.97	(2,385.20)
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax						
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)	9,049.33	(1,160.84)	2,163.34	6,775.08	1,294.97	(2,385.20)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax						
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)	9,049.33	(1,160.84)	2,163.34	6,775.08	1,294.97	(2,385.20)
5	Total Comprehensive Income for the period						
	(Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and						
	other Comprehensive Income (after tax)	9,053.93	(1,159.10)	2,168.75	6,774.45	1,303.80	(2,382.36)
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	ĺ		i	-	- [(39,951.20)
8	Net worth				-	-	(38,257.33)
9	Paid up debt capital / Outstanding debt	80,353.54	81,063.45	78,124.21	80,353.54	78,124.21	78,485.34
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	- 1	-	-	- [-
11	Debt / Equity Ratio	(2.62)	(2.04)	(2.31)	(2.62)	(2.31)	(2.10)
12	Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each)						
	1. Basic	53.42	(6.85)	12.77	40.00	7.65	(14.08)
	2. Diluted	53.42	(6.85)	12.77	40.00	7.65	(14.08)
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-		-
14	Debenture redemption reserve	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13
15	Debt Service Coverage Ratio	1.26	0.18	0.37	0.68	0.37	0.21
16	Interest Service Coverage Ratio	6.24	0.37	2.42	2.31	1.28	0.65
No	tes:						
	The above is an extract of the detailed format of financial re	esults filed with	h stock exchar	nge under regi	ulation 52 of th	e SEBI (Listin	o Obligations
1	101 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						· ·

and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full formats of financial results are available on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.in.emaar.com. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, pertinen disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of stock exchange www.bseindia.com.

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the neeting held on February 12, 2025.

For and on behalf of Board of Directors of

Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah DIN - 07534810

Place: New Delhi

Date : February 12, 2025

Chaman Lal Jain Managing Director, DIN: 00022903

For and on behalf of the Board of Directors

४ हजार प्रजाति के फूलों से महकेगा नोएडा

🛡 २२ फरवरी तक चलने वाले फ्लॉवर शो में 35 फीट ऊंचा बाबा विश्वनाथ का मंदिर आकर्षण का केंद्र रहेगा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

सेक्टर-33 के शिवालिक पार्क में 20 फरवरी से लोग नयनाभिराम 4000 से अधिक प्रजाति के पुष्पों का दीदार कर सकेंगे। 22 फरवरी तक चलने वाले फ्लॉवर शो में पृष्पों से बना 35 फीट ऊंचा बाबा विश्वनाथ का मंदिर आकर्षण का केन्द्र रहेगा।

उद्यान विभाग की प्रभारी व एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि पुष्प प्रदर्शनी में पुष्प प्रदर्शनी के बाहर सेल्फी प्वाइंट बनाये जाएंगे। पार्क का लैंड स्केप फ्लावर शो के लिए तैयार किया जा रहा है। यहा काशी विश्वनाथ



मंदिर के अलावा प्रदेश के अन्य मैन्यूमेंट को भी फूलों से बनाया जाएगा। इसके अलावा जंगली जानवरों की अलग से गैलरी भी होगी। जिसको भी अलग-अलग प्रजातियों के फलों से बनाया जाएगा। फ्लावर शो में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिसमें वे अपनी प्रतिभा को दिखा इंतजाम किए जा रहे है।

एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि शो के दूसरे दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। पहले दिन उद्घाटन सेरेमनी और बच्चों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस शो में पेड़ों के रखरखाव से जाएगा। फ्लावर शो में 80 से अधिक स्टॉल उद्यान प्रेमियों की ओर लगाए

इसमें 38 नर्सरी और कुछ तो कलिम्पोंग और भीमताल से लाए गए है। बीजए खादए पौध, खेती के औजारए उद्यान का सजावटी सामानए कीटनाशक गमले यहां लाए जा रहे है। इसके अलावा जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उद्यान एवं लैंड स्केपिंग प्रतियोगिता, सब्जियों पर नक्काशी रंगोली, प्रतियोगिता, पुष्प प्रदर्शनी. बोनसाई, कैक्टस, और सकुलेंट्स, फोलिऐज एंव सजावटी पुष्पाकृतियां, हैंगिंग बास्केट्स, वर्टिकल गार्डन, इकेबाना शामिल है। यहां इस बार कैक्टस, बोनसाई, फलों एवं सब्जियों के अलावा कई सरकारी और निजी संस्थानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

ऐप के जरिए ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

🛡 नोएडा एसटीएफ की जांच में ३४ खाते सामने आए

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा एसटीएफ यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट, गेमिंग ट्रेंडिंग ऐप के जरिए धोखाधडी करने वाले तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अनैतिक गतिविधियों के लिए बैंक खाते तक प्रोवाइड कराते थे। इनकी पहचान मोहन सिंह उर्फ रोकी, अरमान निवासी अलीगढ व संयम जैन निवासी बागपत हुई है। इनके खिलाफ मध्यप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बैंगलोर सिटी में भी शिकायत मिली है। एसटीएफ यूनिट इने सभी पूछताछ कर रही है। इनके अब तक 34 खाते सामने आए है। जिनकी जांच की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ राज कुमार मिश्र ने बताया कि 12 फरवरी को मुखबिर से सचना मिली कि धोखाधड़ी करने के उद्देशय से भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले तीन लोग सेक्टर-45 के होटल में आने वाले है। खबर कंफर्म होने के बाद एसटीएफ नोएडा की टीम ने



तीनों को पकड कर एसटीएफ कार्यालय लाया गया। उनके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर पछताछ की गई। जिसमें साक्ष्य मिले की यही लोग ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे।

इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए मोहन ने बताया कि उसकी उम्र करीब 33 साल है वह 12वी पास है। 2021 में वो दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाने का काम करता था। उसी दौरान उसकी जान पहचान गोरखपुर के रहने वाले राजन नाम व्यक्त से हुई। राजन ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट उपलब्ध कराता था। मोहन राजन के साथ मिलकर काम करने लगा। मोहन ने राजन के जरिए ढाई महीने

हर्षवर्धन गुप्ता से संपर्क किया। इन लोगों के साथ मिलकर बडे पैमाने पर फाड करने लगा। इसी तरह मोहन के संपर्क में संयम जैन और अरमान भी आ गए। ये सभी मिलकर देश के विभिन्न शहरों से ठगों को अकाउंट उपलब्ध कराने लगे।

जानकारी में सामने आया कि इन लोगों ने ही शामली निवासी कौशल शर्मा को इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया और शेयर ट्रैडिंग के नाम पर पाइंट बीआरई नाम के ऐप से जुड़वाया। साथ ही उससे 51 लाख की धोखाधड़ी की। इसके अलावा रोहणी में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख, मुंबई सेंट्रल रीजन की महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख ठगे। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग इस रकम को यूएसडीटी क्रिप्टो में बदलकर हवाला के जरिए बांटी जाती थी। इनके पूछताछ में अब तक 39 बैंक अकाउंट सामने आए है। जिनका प्रयोग इस संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा था। इन सभी अकाउंट की जांच की जा रही है। अब तक की जानकारी में कर्नाटकए महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, उप्र , वेस्ट बंगाल में कई लोगों से साइबर फ्रांड करके करोड़ों रुपए की ठगी इस गिरोह ने की है।

पेट्रोप पंप कर्मचारियों से १०.७ लाख की लूट

 स्कूटी से बैंक में नकदी जमा करने जा रहे थे

पायिनयर समाचार सेवा। गाजियाबाद

बदमाशों ने 10.7 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया। बदमाश बाइक से पहुंचे और स्कूटी सवार पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जिसके बाद पिस्टल तानते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया।

मेरठ रोड पर दिनदहाड़े लूट की घटना से पुलिस में अफरा तफरी मच गई। थाना पुलिस मौके पर तान दी। जिसके बाद स्कूटी को

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

Particulars

Total Income from Operations

(Loss) of Associtates

comprehensive income

Basic / Diluted

Date: 13.02.2025

ngta Irrigation Limited B

विवरण

अवधि हेतु शुद्ध लाभ∕(हानि) (कर पूर्व

ापवादिक और ∕या असाधारण मद)

कर पूर्व अवधि हेत् शुद्ध लाभ/(हानि)

(आपवादिक और ⁄या असाधारण मद पश्चात

आपवादिक और ⁄या असाधारण मद पश्चात्)

कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)

अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ∕(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल

रिजर्व (पनर्मल्यांकन रिजर्व को छोडकर) जैसावि

लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया

व्यापक आर्य (कर पश्चात्) शामिल]

प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का)

जारी और बंद किए गए परिचालन हेतु)

इक्विटी शेयर पूंजी

लनों से कुल आय

Net Profit / (Loss) after other

Paid up Equity Share Capital

Earnings/(loss) per share (in Rs.)

on www.msei.in, "www.cse-india.com and www.rampurfert.com.

2 Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Net Profit / (Loss) after Share of Profit

ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने

परिवार को झकझोर कर रख दिया। बागपुर गांव स्थित

एक ईंट भट्टे पर आयोजित शादी समारोह में 5 वर्षीय

मासूम की गर्म सब्जी के बर्तन में गिरने से मौत हो गई।

साहिद अपने 5 वर्षीय बेटे सुफियान और परिवार के साथ

अपने साले की शादी में शामिल होने आए थे। शादी

समारोह के दौरान खेलते समय सुफियान अचानक गर्म

सब्जी के बर्तन में गिर गयाए जिससे उसका पूरा शरीर

घटना 9 फरवरी की हैए जब अलीगढ़ निवासी

बदमाश स्कटी भी ले भागे।

पहुंची और घटना की जानकारी रोड पर पेट्रोल पंप है। आज गुरुवार को पंप के कर्मचारी संजय कुमार और अर्जुन बैग में 10 लाख 70 हजा रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही सिहानीगेट थाना क्षेत्र में मेरठ रोड पर श्रीराम पिस्टन फैक्ट्री के सामने पहुंचे तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी सवार दोनों

कर्मचारियों पर तमंचा व पिस्टल

गर्म सब्जी का बर्तन मासूम पर गिरा, मौत

RAMPUR FERTILIZERS LIMITED

Regd. Office: Judges Bareilly Road, Rampur 244 901 (U.P.)

CIN: L15136UP1988PLC010084 Email id- rkumar@rampurfert.com, Web.: www.rampurfert.com

Extract of unaudited financial results for the quarter ended on 31st Dec. 2024

Quarter Ended

695.08

135.47

135.47

121.83

494.82

2.74

Unaudited Unaudited Unaudited

481.81

17.11

14.40

494.82

0.35

The above is an extract of the financial results for the quarter ended on 31st Dec. 2024 filed with the stock exchanges under

regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full Financial results for the quarter ended 31st Dec. 2024 are available

31-12-2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31/12/2024 30/09/2024 31/12/2023

5445.19

339.23

219.21

219.09

1992.35

1.10

उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 13 फरवरी, 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है। उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए गए त्रैमासिक और नौ मा

समाप्ति के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी व

7001.00

215.26

1992.35

1.08

Standalone Results

31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024

566.41

-55.04

-55.04

-55.04

-27.95

494.82

-0.56

रुगिटा डरीगेशन लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 101, प्रगति टावर 26, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

फोनः 011—40453330,31,32, ई—मेलः cs@rungtairrigation.in, वेबसाइटः www.rungtairrigation.in

सीआईएन: L74899DL1986PLC023934

4115.66

200.84

200.84

150.27

150.45

1992.35

0.75

धमकी देते हुए बाइक सवार बदमाश स्कूटी और कैश को लुटकर फरार हो गए। दिनदहाडे गाजियाबाद में लूट की घटना के बाद पलिस के गश्त पर भी सवाल उठे। अफसरों के चेकिंग के तमाम दावों के नाम पर पोल खल गई। एक बाइक पर 2 से 3 बदमाश रहेए पुलिस मान रही है कि बदमाशों ने रेकी के बाद लूट की चलाया गयाए लेकिन बदमाशों का कोई सराग नहीं लगा। पेटोल पंप के मालिक शुभम कंसल ने

🛡 शादी समारोह के दौरान हुआ

हादसा, दिल्ली में चल रहा था इलाज

गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन तुरंत घायल बच्चे को

बिलासपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर

देखते हए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल

रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान गुरुवार को मासूम

ने दम तोड़ दिया। दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने

बताया कि परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी है।

Consolidated Results

Quarter

Unaudited

31.12.2024

695.08

135.47

135.47

132.01

118.37

494.82

2.67

31/12/2024 31/12/2023 31/03/2024

9753.64

601.76

450.87

451.04

1992.35

2.26

15486.41

749.89

749.89

561.10

561.48

1992.35

2.82

Year

ended

Audited

31.03.2024

2240.00

-166.88

-167.08

-128.93

-138.03

494.82

-3.38

Anshuman Khaitan

(लाख रूपये में) वर्ष समाप्ति

14877.30

761.33

761.33

565.06

564.76

1992.35

2.84

(Managing Director)

चूंकि परिवार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता

Ended

Audited

2240.00

-166.88

-167.08

-167.08

-176.18

494.82

-3.38

बाथरूम में फांसी का फंदा लगाकर दी जान

नोएडा। थाना फेस- वन क्षेत्र के सेक्टर-9 में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले युवक ने गुरुवार सुबह को कंपनी के अंदर बाथरूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है।

पुलिस कंपनी के लोगों पूछताछ कर रही है। थाना फेस -वन के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने बताया कि दीप उम्र 32 साल सेक्टर 9 स्थित एक कंपनी में काम करता था। आज सुबह को पुलिस को सूचना मिली कि उसने कंपनी के अंदर पंखे से फंदा लगा लिया है। कंपनी का नाम ऑफशूट है। बताया गया कि दीप इस कंपनी में टीम लीडर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि युवक की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पांच बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो को लगी गोली

नोएडा में अलग-अलग थाना क्षेत्र में पलिस मठभेड के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी है।

थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रूकने का इशारा किया गया। जिसपर मोटरसाइकिल सवार बदमाश रूकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस टीम ने करीब एक किमी तक पीछा किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की

लम्बू उर्फ कनपुरिया निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है।

धीरज पर 19 मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश का एक साथी अंकुर गुप्ता निवासी दिल्ली को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा सहदेव को गिरफ्तार किया। दो बदमाशों जोगेन्द्र सैनी और अनस को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा चोरी की एक ईको कार बरामद की गई। ये तीनों गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद व दिल्ली से वाहन चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके है। सहदेव पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है।

संक्षिप्त समाचार

जेईई मैन में नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 23 छात्रों को सफलता

गाजियाबाद। जेईई मैन परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। फिर नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 23 छात्रों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर स्कूल व जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल के 23 छात्रों ने 99.99 से 90 परसेंटाइल के बीच अंक प्राप्त किए हैं। जिसमें सक्षम गर्ग 99.996, अराध्य अग्रवाल १९.८७, कियांश गर्ग १९.८२, मानव यादव १९.५४, ओजस सचदेवा ९९.२३, दिव्यांशी श्रीवास्तव ९९.०३, वेदास्वत मिश्रा ९८.७४, वात्सल्य श्रीवास्तव 98.72, पार्थ गोयल 98.72, प्रथित द्विवेदी 98.406, गर्व गुप्ता 98.33, मध्श्रेया 97.99, नौवेश कौशिक 96.03, मोहित भारद्वाज 95.07, निकुंज भारद्वाज 95.6, आरव मलिक 95, प्रगति सिंघल 94.56, विवान श्रीवास्तव 94.2, औजस्व पटेरिया 93.48, समिक स्वरूप बिस्वल 91.79, ध्रुव मित्तल 91.75, सुवान गुप्ता 91.68, सिद्धि बंसल ने 91.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के प्रबंधन निदेशक अरुणाभ सिंह, एग्जीक्यूटिव हैड सुजैन होम्स व शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों, उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी।

जेवर में कार रोककर परिवार पर जानलेवा हमला

नोएडा। बुलंदशहर के खुर्जा में रहने वाले एक परिवार के साथ जेवर में दर्दनाक घटना सामने आई है। मंगलवार रात करीब 9.30 बजे राजकुमार अपनी पत्नी सुशीला और तीन बच्चों के साथ गुडगांव जा रहे थे। जेवर के टप्पल रोड पर एक निजी अस्पताल के पास पहुंचते ही दयानतपुर गांव के कुछ लोगों ने उनकी कार रोक ली। आरोपी भीम, कोशेंद्र और आशीष अपने चार साथियों के साथ वहां पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। जब राजकुमार ने इन लोगों का विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनके पूरे

मसूरी रेलवे ट्रैक पर मिला दिल्ली निवासी का शव

गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर पिलर नंबर 128/33 के पास एक 44 वर्षीय व्यक्ति की लाश क्षत-विक्षत अवस्था में मिली। इस घटना की सुचना मिलने के बाद एसएचओ मसुरी अजय कुमार सिंह की टीम फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिये भिजवाकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिये। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त मोहन चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी निवासी एम 112 ब्लॉक नंदलाल मंदिर के पास मोहन गार्डन उत्तमनगर के रूप में हुई।

वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत से बार एसोसिएशन में शोक

गाजियाबाद। कई वर्षों तक गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 78 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता जवाहर सिंह निवासी ढिंडार मरादनगर हाल निवासी आर 9/277 राजनगर का देहांत सुबह हो गया। इस सूचना के बाद जहां उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया वहीं कचहरी में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद बार एसोसिएशन ने विधिक कार्यों से निवर्त्त रहते

600 किलो गांजा नष्ट कीमत एक करोड़ से ज्यादा

नोएडा । न्यायालय के निर्देश के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने विभिन्न थानों पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के अभियोगो से संबंधित 646-705 किलोग्राम गांजे को नष्ट कराया। नष्ट कराए गए गांजे की कीमत करीब गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से संबंधित मादक पदार्थी लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी ऋाइम शक्ति मोहन अवस्थी व डीसीपी नारकोटिक्स अशोक के निर्देशन में 7 थानों पर पंजीकृत 134 अभियोगों से संबंधित 646.705

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही

पैठ बाजार लगवाने वाले ठेकेदारों की लिस्ट के बाद साप्तहिक पैठ बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर इसका खंडन किया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि इस लिस्ट में ठेकेदारों के नामए नम्बर दिए हैंए जो गलत हैं। संस्था के सरंक्षक सुरेश कोरी ने बताया कि जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं उसमें वह नाम शामिल हैंए जिन्हें एसोसिएशन ने बाजारों की व्यवस्थाएं सम्भालने के लिए जोनल जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष नामित किए हैं। विजयनगरए करने की मांग की है।

पदाधिकारी नामित किए गए हैंए लेकिन हमारे खिलाफ साजिश रचकर फर्जी तरीके से लिस्ट निकाल कर हमें बदनाम किया जा रहा है। नगर निगम वैंडिंग कमेटी के सदस्य पार्षद ओमप्रकाश ने कहा कि इस मुद्दे पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव पैठ बाजारों के पक्ष में कह चुके हैंए उसके बाद भी बाजारों को नहीं लगने दिया जा रहा हैए वह पुरी तरह से गलत है। एसोसिएशन ने इस मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत कर फर्जी लिस्ट

पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान सं. L65929DL1947PLC001240

क्यापाट चरुपान (च. E003259/E017) राजे. कर्यालयः प्रथम तत, पुस्तप्रेस विश्वित, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फोन: 7303495375, ई-मॉल- pnbfinanceindustries@gmail.com, वेचसाइट-www.pnbfinanceandindustries.com

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों हेतू अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

			•		(प्रति शेयर डे	टा को छोड़कर	लाख रुपये व
_			तिमाही समाप्ति	7	नौ माह	समाप्ति	वर्ष समाप्ति
क्र. सं.	विवरण	दिसम्बर 31, 2024	सितम्बर 30, 2024	दिसम्बर 31, 2023	दिसम्बर 31, 2024	दिसम्बर 31, 2023	मार्च 31, 2024
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	लेखापरीक्षित
1	संचालनों से कुल आय	45.47	551.56	241.24	998.20	927.35	1,158.2
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मद)	18.83	515.08	206.72	904.82	673.44	864.2
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	18.83	515.08	206.72	904.82	673.44	864.2
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	14.64	385.49	172.84	732.54	562.17	721.6
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(डानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	3,769.61	57,579.86	4,789.09	64,263.34	3,768.19	(2,651.9
6	इक्विटी शेयर पूंजी (ॲकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर)	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.0
7	अन्य इक्विटी (वर्ष के अंत तक)						2,62,605.6
8	प्रत्येक 10 रुपये के प्रति शेयर आय 1. मूलभूत (रु. में)	0.46	12.04	5.40	22.89	17.57	22.5
	2. तरलीकृत (रु. में)	0.46	12.04	5.40	22.89	17.57	22.5

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 13 फरवरी, 2024

1. उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और फरवरी 13, 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

. उपरोक्त सेवी (सचीबब्बता द्ययित्व और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। कंपनी के उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की बेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे 13 फरवरी, 2025 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी भेजा गया है। . तिमाही और नौ महीनों के लिए दिसम्बर 31, 2024 को अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या नीचे वर्णितः

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर लाख रुपये में) तिमाही समाप्ति नौ माह समाप्ति वर्ष समाप्ति दिसम्बर ३१, सितम्बर ३०. दिसम्बर ३१ दिसम्बर ३१. दिसम्बर ३१ मार्च 31 2024 2024 2023 2024 2023 2024 पंचालनों से कुल आय 535.52 33.83 161.78 966.35 827.54 939.16 7.25 499.15 128.39 873.27 576.98 649.01 तर पूर्व अवधि हेत् शुद्ध लाम⊅(हानि) . कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध 107.08 373.52 708.30 481.11 542.26 5.43 1,564.10 32,245.98 4,505.95 3,569.09 -888.70 अवधि हेतु कुल व्यापक आय 37,721.23

संबंधित तिमाही के आँकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है, जहां भी आवश्यक हो वर्तमान तिमाही वर्गीकरण/प्रस्तुति की पुष्टि



निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कते पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्टीज लिमिटेड राकेश धुमानी डीआईएनः 07065199

This Public Notice is from M/S JKG Construction Pvt Ltd for Mr Manish Dutt Sharma and Mrs Shikha Sharma bearing unit no. C1-1604 at JKG Palm Court, Plot No. GH-01D, Sector 16C, Greater Noida West, Uttar Pradesh-201009.

We have offered possession of your allotted unit in February 2021, basis which we have shared final demand notice of unit C1-1604 on 21.06.2021, 30.11.2022, 17.08.2024, 21.08.2024, 24.08.2024 & 27.08.2024 but you failed to make the payment as per final demand notice. Hence we have cancelled your allotted unit via cancellation intimation letter dated 02.12.2024. Neither got any response from your end nor we have received any payment so far which tantamount to your tacit acceptance that you are no more interested in taking possession of

Hence your allotted flat C1-1604 is being cancelled on 16.01.2025, as such the allotment has become null & void and you have no claim on the dwelling unit and your deposited amount shall be refunded as per BBA For M/S JKG Construction Pvt Ltd

जिंदल लीजफिन लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1994PLC059252 रजि. कार्यालयः 110, बाबर रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक 31.12.2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह समाप्ति हेत् स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का साराँश

	विवरण		30.09.2024				31.03.2024
सं.	,,,,,,	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	संचालनों से कुल आय	-138.93	11.37		-126.06		0.73
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मद)	-142.21	9.51	-2.07	-136.82	-8.85	-18.56
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चातु)	-142.21	9.51	-2.07	-136.82	-8.85	-18.56
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(ज्ञानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	-106.64	-3.59	-1.53	-113.24	-6.55	-15.77
5	अवधि हेतु कुल ब्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल ब्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	-108.68	13.72	8.36	-85.88	27.07	30.48
6	इक्विटी शेयर पूंजी	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89
7	रिजर्ष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाचा है	439.98	548.67	522.44	439.98	522.44	525.86
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रूपये का अंकित मूल्य) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	1. मूलभूत	-3.54	-0.11	-0.07	-3.76	-0.24	-0.52
	2. तरलीकृत	-3.54	-0.11	-0.07	-3.76	-0.24	-0.52

टिप्पणी:-

स्थानः नई दिल्ली

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचैंजों के साथ दाय 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैण्डअलौन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट www.jindalleasefin.in पर भी उपलब्ध है

उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत समीक्षा की गई, निवेशक मंडल द्वारा 12-02-2025 को आयोजित बैठक में अनुमोदित



कृते जिंदल लीजफिन लिमिटेड (सुरेंद्र कुमार जिंदल) प्रबंध निदेशक

वेबसाईट https://www.rungtairrigation.in/financial-year-2024-25/ पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

पूर्णकालिक निदेशक । डीआईएन:00229045

साप्ताहिक पैंट बाजार एसोसिएशन ने किया ठेकेदार लिस्ट का खंडन

1 करोड 25 लाख रुपए है। कमिश्नरेट को नियम अनुसार नष्ट किए जाने के किलोग्राम गांजे को फाइव कासना में